



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23, 1977/श्रावण 1, 1899

No. 252

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23, 1977/SRAVANA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 23rd July 1977

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 198/76-Central Excises, dated the 16th June, 1976, namely—

In the said notification,—

(i) in the first paragraph, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely—

“(c) in the case of paper described in the Table annexed to the said notification, the clearances of such paper in respect of which a manufacturer has availed or avails of the exemption under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 42/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, or the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 129/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, shall not be taken into account.”

- (ii) in paragraph 4, in clause (c), for the letters, figures and words "Nos 128/77-Central Excises and 129/77-Central Excises, both", the letters, figures and words No. 128/77-Central Excises", shall be substituted

[No. 257/77.]

LAJJA RAM, Dy Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 539(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 198/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जून, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) प्रथम पैरा में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में वर्णित कागज की दशा में ऐसे कागज की निकासी, जिसकी बाबत विनिर्माता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैकिंग विभाग) की अधिसूचना सं० 42/73 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1973 या भारत सरकार के राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 129/77 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 के अधीन छूट प्राप्त की है या प्राप्त करता है, गणना में नहीं ली जाएगी।”;

- (ii) पैरा 4 में, खण्ड (ग) में “सख्या 128/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और 129/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, दोनों ही” शब्दों और अंकों के स्थान पर “सं० 128/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क” अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 257/77]

लज्जा राम, उपसचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फिन्तो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977